

भारत का सजापत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902

No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

याणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 3-ईटोसी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

विषय:—1-1-1981 से 31-12-1981 तक सूत, ऊन और हाथ से बने रेशों की बनी
पोशाक और बूने हुए वस्त्रों का अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के
सदस्य-राज्यों, नार्वे, फिनलैंड, आस्ट्रिया और कनाडा को सामान्य
खुले लाईसेंस-3 के अन्तर्गत निर्यात के लिए योजना ।

मिसल सं. 2/54/80/ई-1 —उपयुक्त विषयक संशोधन आदेश संख्या 191
दिनांक 1-1-1981 की ओर ध्यान दिया जाता है ।

यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत बूने हुए ऊनी वस्त्रों
के निर्यात के संबंध में 1-1-1981 से 31-12-1981 तक की अवधि के दौरान पोट-

परिवहन बिलों पर आवश्यक पृष्ठांकन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किए जाने चाहिए। लेकिन, ऊनी वस्त्रों और तैयार पोशाकों के संबंध में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा ऐसे पृष्ठांकन जारी रहेंगे।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य विदेशक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 3-ETC(PN)/81

New Delhi, the 1st January, 1981

Sub : Scheme for exports under OGL 3 of Garments and Knitwears made from Cotton, Wool and man-made fibres to USA, EEC Member-States, Norway, Finland, Austria and Canada from 1-1-1981 to 31-12-1981.

F. No. 2/54/80-EI.—Attention is invited to Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(191) dated the 1st January, 1981, on the above subject.

2. It has been decided that during the period 1-1-1981 to 31-12-1981 necessary endorsements on Shipping Bills shall be made by the Apparels Export Promotion Council in respect of export of Woollen Knitwears to the countries under the above scheme. However, in respect of Woollen fabrics and made ups the Cotton Textiles Export Promotion Council will continue to make such endorsements.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports